

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

पत्रांक.....1420 (अनु०)
प्रेषक,

डिहरी/दिनांक.....19/10/23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-सचिव,
ब्राडा,
भूमि विकास बैंक भवन,
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय :- MR New Maintenance policy-2018 में किये गये कार्य के विरुद्ध
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR New Maintenance policy-2018 अर्न्तगत कराये गये कार्यों के विरुद्ध संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। इस पथ में कोई भी ATR लंबित नहीं है। उक्त पथ का सभी डाटा की प्रविष्टि MIS पर अद्यतन है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

NKumar
19.10.23
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी।

Hins
19.10.23

FORM GFR 19 -A
(SEE GOVERNMENT of India's Decesion (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the Month of October. 2023
NEW MAINTENANCE POLICY 2018 MR (3054)

PIU - RWD DEHRI

S.No	Name of Scheme	Sanction No. & Date	Amount Received	Particulars
		With amount(in Rs. Lacs)	(In Rs. Lacs)	
1	Contruction of Rural Road Under MR-3054	129 27-09-2023	4763.17538	Certificate that out of Rs. 4763.17538 Lacs received during the years in favour of Executive Engineer , RWD Dehri Bihar. Sum of Rs. 4656.47265 Lacs has been utilised for the purpose of MR (3054)-2018 Fund hences as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 106.70273 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
TOTAL			4763.17538	

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand-in-aid was sanctioned have been duly

- 2 fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by :
Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.

[Signature]
19.10.23
D.A.O

RWD (W) Div. Dehri

[Signature]
19.10.23
Executive Engineer
RWD (W) Div. Dehri

[Signature]
19-10-23

Office of the Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Dehri

Requisition formate Scheme Head MR (3054) under Bihar road Maintenance Policy-2018 (Rectification and Surface Renewal)

Sl No.	Package No.	Name of Road	Project Id as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. and Date	Administrative Approval (AA) Length (in Km)	Administrative Approval (AA) Amount (in lakh)	Agreement (in lakh) Initial Rectification with Surface Renewal (in lakh)	Agreement (in lakh) Five Year Routine Maintenance (in lakh)	Agreement No. and Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/KM)	Thickness of Bitumin Layer (in mm)	Value of Bitumin Content in Percentage	Previous total amount (in lakh)	Up to Date expenditure as per MIS (in lakh)	Requisition against Work Done (in lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/RO/DEH/23/0003	Chibila - Khudrao Road	10301202013	25.03.23/1891	1.00	68.41600	41.61625	16.17950	RM/RO/DEH/23/0003 /MBD/2023-24 / 19.08.23	18.04.23	-	2605	25 MM	5%	0.000	0.000	32.310	Complete
2	RM/RO/DEH/23/0003	Ayerkotha Amra Talab PWD Road - Bagain	10301202009	25.03.23/1891	0.87	47.42200	29.40024	11.16075	RM/RO/DEH/23/0003 /MBD/2023-24 / 19.08.23	18.04.23	-	2471	25 MM	5%	0.000	0.000	25.110	Complete

नोट:- विभागीय पत्रांक-मु030(सु) 3054-4-04/2020 पार्ट 4 5047 दिनांक 23.12.2021 के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि-

- गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराने के बाद MIB में दर्ज किया गया है।
- सम्बंधित कार्य कर्तीय अभियंता द्वारा कराया गया (100% जांचा गया) सहायक अभियंता द्वारा 50% तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा 10% जांचा गया तथा MIS पर Upload किया गया।

D.A.O
RWD (W) Div. Dehri

EXECUTIVE ENGINEER
RWD, WORKS DIVISION,
DEHRI

19.10.23

19.10.23

Road Name - Chibbla - Khudrao Road

Contractor Name- Sushma Associates Private Limited

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
19/10/23	10:39:16	26	0.1	240	20.2	2400	2815	G	24.98640	84.24436	Normal
19/10/23	10:40:0	26	0.1	250	20.2	2500	2915	G	24.98642	84.24418	Speed Breaker
19/10/23	10:40:35	26	0.1	180	20.2	1800	2215	G	24.98612	84.24324	Normal
19/10/23	10:40:55	26	0.1	190	20.2	1900	2315	G	24.98592	84.24230	Normal
19/10/23	10:41:23	26	0.1	240	20.2	2400	2815	G	24.98586	84.24113	Speed Breaker
19/10/23	10:41:47	26	0.1	180	10.1	1800	2215	G	24.98578	84.23999	Normal
19/10/23	10:41:59	26	0.1	220	10.1	2200	2615	G	24.98568	84.23910	Normal
19/10/23	10:42:37	26	0.1	250	20.2	2500	2915	G	24.98551	84.23783	Normal
19/10/23	10:42:55	26	0.1	200	20.2	2000	2415	G	24.98528	84.23578	Normal
19/10/23	10:43:27	26	0.1	240	30.3	2400	2815	G	24.98527	84.23577	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 1.000 * X + 415.2$$

$$X = 2900$$

$$Y = 3315$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

IRI Value

Average IRI- 2605

Sushma
19/10/23
JE

Sushma
19.10.23
JE

Name of Customer :	Sushma Associates Private Ltd
Name of Work/ Road :	Chibla - Khudrao Road
Lab Job number :	35
Date :	19-10-2023
Section No. :	35


Test Date :	19-10-2023	Road Name :	Chibla - Khudrao Road
Machine No. :	412	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No. :	436	Side :	Akhongola
Start E No. :	445	Interval :	
Weather :	Normal	UV Range :	1215 To 4000 mm/km
Start Location :	8640.8424436	Dist Range :	0 To 11 0.1 1000 m
End Location :	8527.8423577	Equation :	$Y = 0 \cdot X^2 + 1.000 \cdot X + 415.2$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\BPPDA7\Desktop\2023\Bump Report\Sushma new Agreement\Chibla - Khudrao Road
Name of Customer : Name of Work/ Road : Lab Job number :



MURMAN
19.10.23
EE

19/10/23
7E